



अवैध शस्त्र फैक्ट्री का थाना त्रिलोकपुर, भवानीगंज एवं डुमरियागंज की संयुक्त टीम द्वारा बरामद कर एक टाप- 10 अपराधी को गिरफ्तार किया गया ।

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी" हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में 10/11-09-2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम लोहरौला थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर के अन्तर्गत बहादुरपुर आम की बगिया के पास स्थित झोपड़ी में थाना क्षेत्र भवानीगंज का एक व्यक्ति आकर शस्त्र का निर्माण करता है कि मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर श्री रणधीर कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर, श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना भवानीगंज व श्री कृष्ण देव सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज मय हमराही फोर्स के बहादुरपुर आम की बगिया में पहुँचकर हमराही फोर्स की मदद से अभियुक्त फिरोज मलिक पुत्र जुबेर साकिन श्यामपुर थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार मय 03 अदद तमन्चा 315 बोर, 08 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा व तमंचा बनाने में प्रयुक्त अन्य सामग्री के साथ समय रात्रि 23:15 बजे गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 173/2020 धारा 3/5/25/26 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया ।

विवरण बरामदगी-

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 01-03 अदद देशी तमंचा 315 बोर | 13- 01 अदद लोहे की गोल टीकरी |
| 02-08 अदद अर्द्धनिर्मित देशी तमंचा | 14- 01 अदद लोहे की सड़सी |
| 03-01 अदद सुम्मी | 15- 01 अदद लोहे की भट्टी (धोकनी) |
| 04-01 अदद लोहे की हथौड़ी | 16- 01 अदद लोहे का ठीहा |
| 05-04 अदद स्प्रिंग बड़ा | 17- लगभग एक किग्रा0 कोयला |
| 06-06 अदद स्प्रिंग छोटा | 18- एक पैकेट मोमबत्ती |
| 07-02 अदद रिन्च | 19- 01 अदद अधजली मोमबत्ती |
| 08-01 अदद छेनी | 20- एक डिब्बी माचिस |
| 09-38 अदद रिपिट | |
| 10-06 अदद नट-बोल्ट | |
| 11- 01 लोहे का आरी ब्लेड लगा हुआ | |
| 12- 02 अदद ब्लेड (आरी) | |

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- फिरोज मलिक पुत्र जुबेर निवासी श्यामपुर थाना भवानीगंज, जनपद-सिद्धार्थनगर ।

फिरोज मलिक का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 92/06 धारा 363,366,376 भा.द.वि. थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
 - 2- मु0अ0सं0 77/12 धारा 395,397,120,412 भा.द.वि. थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
 - 3- मु0अ0सं0 79/12 धारा 147,148,149,307 भा.द.वि. थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
 - 4- मु0अ0सं0 204/12 धारा 3(1) गैरेस्टर भा.द.वि. थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
 - 5- मु0अ0सं0 724/15 धारा 110 सीआरपीसी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
 - 6- मु0अ0सं0 - /19 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
 - 7- मु0अ0सं0 32/2020 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट भा.द.वि. थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
 - 8- मु0अ0सं0 159/2020 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
- अपराधी फिरोज मलिक थाना भवानीगंज का हिस्ट्रीशीटर एवं टाप-10 अपराधी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01- श्री रणधीर कुमार मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर, जनपद-सिद्धार्थनगर ।
- 02- श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज, जनपद-सिद्धार्थनगर ।
- 03- श्री कृष्ण देव सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज, जनपद-सिद्धार्थनगर ।
- 04- उ0नि0 श्री जयप्रकाश त्रिपाठी, थाना त्रिलोकपुर, जनपद-सिद्धार्थनगर ।
- 05- उ0नि0 श्री रमाकान्त सरोज, थाना त्रिलोकपुर, जनपद-सिद्धार्थनगर ।
- 06- मु0 आरक्षी श्री शोभनाथ यादव, थाना त्रिलोकपुर, जनपद-सिद्धार्थनगर ।
- 07- आरक्षी पप्पू गुप्ता, थाना त्रिलोकपुर, जनपद-सिद्धार्थनगर ।
- 08- आरक्षी गजानन्द पाण्डेय, थाना त्रिलोकपुर, जनपद-सिद्धार्थनगर ।

उक्त सराहनीय कार्य करने पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा नकद पुरस्कार रु 20,000/- से पुरस्कृत किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 11-09-2020

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 11.09.2020 को मु. अ. सं. 158/2020 धारा 363, 366, 368, 376 भा.द.वि. 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट, 5/6 व 16/17 पाक्सो एक्ट थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर के वांछित अभियुक्त जुनैद पुत्र अजमत अली निवासी बगहवां थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को इटवा पुलिस टीम द्वारा प्रातः 06:00 बजे शाहपुर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया।

ज्ञातव्य है कि मु0अ0सं0 158 /2020 धारा 363 366 368,376 भा.द.वि. 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट, 5/6 व 16/17 पाक्सो एक्ट, वादी अरविंद कुमार पुत्र बुधई राम निवासी कटया मुस्तहकम द्वारा दिनांक 26-08-2020 को अपनी नाबालिग बहन के अपहरण व दुष्कर्म करने के संदर्भ में थाना इटवा पर पंजीकृत कराया गया था। घटना के मुख्य अभियुक्त सज्जाद अहमद को दिनांक 29-08-2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज गिरफ्तार युवक जुनैद पर पीड़िता के अपहरण में मुख्य अभियुक्त सज्जाद अहमद का सहयोग करने का आरोप था।

विवेचक श्रीयश त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी, जनपद-सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0 नि0 अर्जुन सिंह चौकी प्रभारी शाहपुर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
का ज्वाला सिंह थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर
का. सचिन धवन थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 11-09-2020

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 11.09.2020 को मु. अ. सं. 168/2020 धारा 376 भा.द.वि., 3/4 पोक्सो व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर के वांछित अभियुक्त मासूम पुत्र हिदायत निवासी सिंहोरवा तिवारी, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को इटवा पुलिस टीम द्वारा समय 04:30 बजे महादेव घुरहू चौराहा से जब वह फरार होने की कोशिश कर रहा था, गिरफ्तार कर लिया गया।

ज्ञातव्य है कि मु0अ0सं0 168/2020 धारा 376 भा.द.वि., 3/4 पोक्सो व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट दिनांक 10-09-2020 को श्रीमती तारावती पत्नी गोबरे निवासिनी सिंहोरवा तिवारी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त मासूम द्वारा दुष्कर्म किए जाने के संदर्भ में इटवा थाना पर पंजीकृत कराया गया था। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में अभी तत्काल गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया जिसके द्वारा घटना के 10 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

विवेचक श्रीयश त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी, जनपद-सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0 नि0 रामेश्वर यादव, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
का कयूम अंसारी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर
का. सुरेन्द्र कुमार, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर

श्री विजय डुल पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में आज दिनांक 11-09-2020 को रिजर्व पुलिस लाइन्स सिद्धार्थनगर में पुलिस सद्भावना खेल-कूद का आयोजन किया गया।

श्री विजय डुल पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में आज दिनांक 11-09-2020 को रिजर्व पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में पुलिस सद्भावना खेल-कूद का आयोजन किया गया जिसमें समस्त सर्किल एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक पुलिस लाइन्स एवं फायर सर्विस की कुल 8 टीमों ने प्रतिभाग किया। खेल प्रतियोगिता में रस्सा-कस्सी खेल का आयोजन कराया गया। जिसमें कड़ी टक्कर मशक्कत के बाद बांसी सर्किल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वहीं फायर सर्विस की टीम द्वितीय स्थान एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रतिभागियों एवं विजेता टीम को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा नगद पुरस्कार एवं शील्ड प्रदान की गई। इस अवसर पर श्री विजय डुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा कहा गया कि खेल हमें जीवन में आने वाली मुसीबतों एवं विषम परिस्थितियों व चुनौतियों से लड़ने के लिए हौसला एवं आत्मविश्वास देती है।

